



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I
PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 218]

नई दिल्ली, वीरवार, नवम्बर 8, 1979/कार्तिका 17, 1901

No 218]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 8, 1979/KARTIKA 17, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(अप्रत्यक्ष कर प्रभाग)

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 1979

सार्वजनिक सूचना

MINISTRY OF FINANCE

Department of Revenue

(Indirect Taxes Division)

New Delhi, the 8th November, 1979

PUBLIC NOTICE

सामान्य शूलक तथा केन्द्राय उत्पादन शूलक प्रतिभ्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70/प्र०अ०) के नियम 4 के अर्धान, केन्द्राय सरकार समय-समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं० प्रति भ्रदायगी/सा० सू० 1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है —

1 उपक्रम सं० 2509 की मद (ख) के सामने स्तम्भ 'प्रतिभ्रदायगी की दर' में वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

"2 95 रुपये (केवल दो रुपये पञ्चानवे पैसे) प्रति किलोग्राम"

2 उपक्रम सं० 2510 की मद (ख) के सामने स्तम्भ 'प्रतिभ्रदायगी की दर' में वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"5 85 रु० (केवल पांच रुपये पचासी पैसे) प्रति किलोग्राम"

3 यह सार्वजनिक सूचना 1 जून, 1979 से लागू हुई समझी जाएगी

[सं० प्रतिभ्रदायगी/सा० सू० 74/79]

महेश कुमार, अव्वर सचिव

Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extra-Ordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the 'Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971, as amended from time to time :

1. In the column 'Rate of drawback' against item (b), of sub-serial No. 2509 for the existing entries, the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 2.95 (Rupees two and paise ninety five only) per kg."

2. In the column 'Rate of drawback' against item (b) of sub-serial No. 2510 for the existing entries, the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 5.85 (Rupees five and paise eighty five only) per kg."

3. This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of June, 1979.

[No. DRAWBACK/PN-74/79.]
MAHESH KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 1979

New Delhi, the 8th November, 1979.

सार्वजनिक सूचना

सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रति भ्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं० प्रति भ्रदायगी/सा० सू० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है:—

उप क्रम सं० 4706 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाव निम्नलिखित उप क्रम सं० और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात:—

उप क्रम सं०	विवरण	प्रति भ्रदायगी की दर
4707.	ढलवा मिश्रित मिथरगुणा चुम्बक।	कोवास्त अन्तर्वस्तु, यदि कोई हो, के संबंध में 180.00 रु० (केवल एक ही अस्सी रुपये) प्रति कि० ग्रा०। जमा निकल अन्तर्वस्तु, यदि कोई हो, के संबंध में 19.00 रु० (केवल उन्नीस रुपये) प्रति कि० ग्रा०। जमा एल्युमिनियम अन्तर्वस्तु के संबंध में, यदि कोई हो, 5.00 रु० (केवल पांच रुपये) प्रति कि० ग्रा०। जमा ताबा अन्तर्वस्तु, यदि कोई हो, के संबंध में 15.00 रु० (केवल पन्द्रह रुपये) प्रति कि० ग्रा०। जमा लोह अन्तर्वस्तु, यदि कोई हो, के संबंध में 3.00 रु० (केवल तीन रुपये) प्रति कि० ग्रा०।
4708.	कैराइट चुम्बक।	3.45 रु० (केवल तीन रुपये पैंतालीस पैसे) प्रति क्विंटल।
4709.	नरम कैराइट संघटक अर्थात:— (क) टी० बी० योक, ई० कोर, सी० कोर, यू० कोर और पीट कोर। (ख) ऐटिना राड, कम कोर, ड्रम कोर, लस्कू कोर और वाइड बैंड चोक।	1 25 रु० (केवल एक रुपया पच्चीस पैसे) प्रति कि० ग्रा०। 5.80 रु० (केवल पांच रुपये अस्सी पैसे) प्रति कि० ग्रा०।
4710.	कार्बन विल प्रतिरोधक	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 5 प्रतिशत (केवल पांच प्रतिशत)।
4711	परिवर्तनशील पी०बी०सी० गैंग संघनित्र।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 6 8% (केवल छः दशमनख घाठ प्रतिशत)।
4712.	मध्यम आवृत्ति वाले ट्रांस-फोर्मर (आई०एफ०टी०एस०)	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 20% (केवल बीस प्रतिशत)।

2. यह सार्वजनिक सूचना 1 अक्तूबर, 1979 से लागू हुई समझी जायेगी।

3. उपर्युक्त माल के संबंध में अलग-अलग निर्यात/निर्यातकर्ता के लिये नियत की गई सभी ग्राह्य दरें इस सार्वजनिक सूचना के लागू होते ही रद्द हो जायेगी।

[सं० प्रतिभ्रदायगी/सा० सू० 75/79]
महेश कुमार, अवर सचिव

PUBLIC NOTICE

Under rule 3 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extra-ordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971, as amended from time to time.

1. After sub-serial No. 4706 and the entries relating thereto, the following sub-serial Nos. and the entries shall be inserted, namely:—

Sub. Sl. No.	Description	Rate of drawback
4707	Cast Alloy Permanent Magnets	Rs. 180.00 (Rupees one hundred and eighty only) per kg. in respect of Cobalt content, if any. Plus. Rs. 19.00 (Rupees nineteen only) per kg. in respect of Nickel content, if any. Plus. Rs. 5.00 (Rupees five only) per kg. in respect of Aluminium content, if any. Plus. Rs. 15.00 (Rupees fifteen only) per kg. in respect of Copper content, if any. Plus. Rs. 3.00 (Rupees three only) per kg. in respect of iron content, if any.
4708	Ferrite Magnets.	Rs. 3.45 (Rupees three and paise forty five only) per quintal.
4709	Soft Ferrite Components, viz. (a) T.V. Yoke, E Core, C Core U Core and Pot Cores. (b) Antenna Rod, Cup Cores, Drum Cores Screw Cores and Wide band Chokes.	Rs. 1.25 (Rupees one and paise twenty five only) per kg. Rs. 5.80 (Rupees five and paise eighty only) per kg.
4710	Carbon Film Resistors	5% (Five per cent only) of the f.o.b. value.
4711	Variable PVC Gang Condensers.	6.8% (Six point eight per cent only) of the f.o.b. value.
4712	Intermediate frequency transformers (IFTS)	20% (Twenty per cent only) of the f.o.b. value.

2. This Public Notice shall be deemed to have come into force on the first day of October, 1979.

3. All brand rates fixed for individual manufacturer/exporter in respect of above goods will stand withdrawn with the coming into effect of this Public Notice.

[No. DRAWBACK PN-75/79]
MAHESH KUMAR Under Secy.

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 1979

New Delhi, the 8th November, 1979.

शुद्धि-पत्र

CORRIGENDUM

भारत के राजपत्र असाधारण के भाग 1 खण्ड (1) में प्रकाशित दिनांक 1 जून, 79 की सार्वजनिक सूचना सं० प्र० अ०/सां०सू०-42/79 में केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है.—

In the Public Notice No. DRAWBACK/PN-42/79 dated the 1st June, 1979 published in Part I, section (1) of the Gazette of India, Extra-ordinary, the Central Government hereby makes the following corrections therein :

"उपक्रम सं० 5009 के सामने" शब्दों के स्थान पर "बेस" पढ़ें।"

For the words "buffing" appearing against sub-serial No. 5009, read "base."

[स० प्रतिप्रदायगी/सां०सू० 76/79]

[No. DRAWBACK/PN-76/79]

महेण कुमार, अधीक्षक सचिव।

MAHFESH KUMAR, Under Secy.

